

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1973/श्रावण 2, 1895

No. 265] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 1973/SRAVANA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July 1973

S.O. 406(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Coir Industry Act 1953 (45 of 1953), read with sub-rule (1) of rule 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coir Board for a period of three years from the date of publication of this notification, in the official gazette namely:—

(a) *Growers of coconuts and producers of husks and coir yarn—*

1. Shri K. Srinivasa Karayalar, Thaicad, Trivandrum (Kerala).
2. Dr. I. S. Patel, M.Sc., Ph.D., No. 8, XVII Cross, XII Main Malleswaram, Bangalore-3.
3. Dr. K. Padmanabhan, Vetturimadam, Nagercoil, Kanya Kumari District. (Tamil Nadu).

(b) *Persons engaged in the production of husks, coir and coir yarn and in the manufacture of coir products—*

1. Shri K. C. Eapen, President, Coir Labour Union (INTUC), Alleppey.
2. Shri V. Ramesan, Vice-President, Travancore Coir Factory Workers Union (AITUC), Alleppey.
3. Shri M. Kanaran, Coir Workers Union, Kozhikode.

(c) *Manufacturers of coir products—*

1. Shri C. Prabhakaran, M/s. Aspinwall & Co. (Trav.) Ltd., Alleppey.
2. Shri Ravi Karunakaran, Managing Director, Alleppey Co. Ltd., Alleppey.
3. Shri Raman Kutty Achan, President, Gundur Island Coir Products Co-operative Society, Cochin.

(d) *Dealers in coir, coir yarn and coir products including both exporters and internal traders.*

1. Shri C. G. Sadasivan, Chairman, Kerala State Coir Corporation Ltd., Alleppey.
2. Shri C. V. Rajappan, Charankattu Coir Mfg. Co., Shertalla.
3. Shri V. R. Prasad, Travancore Coir Mats & Matting Co., Shertallai.

(e) *Members of Parliament—*

1. Shri C. K. Chandrapan, M.P., Lok Sabha.
2. Shri Vayalar Ravi, M.P., Lok Sabha.
3. Dr. Mathew Kurian, M.P., Rajya Sabha.

(f) *Government of the principal coconut growing States—*

1. Special Officer for Coir, Kerala, Trivandrum.
2. The Joint Director of Industries and Commerce, Tamil Nadu.
3. The Joint Director of Industries, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
4. The Joint Director of Industries and Commerce, Government of Mysore, Bangalore.
5. The Joint Director of Industries and Commerce, Government of Orissa, Bhubaneswar.

(g) *Such other persons or class of persons who in the opinion of the Central Government ought to be represented on the Board.*

1. Shri Ramesh Pai, Chairman, Karnataka Coir Products Ltd., Udupi.
2. Shri H. N. Kalani, Chief Executive, Hastings Mill Ltd., Calcutta.
3. Shri J. Murukandy, The Commercial Emporium, Alleppey.

[No. F. 16/1/73-I.C.C.(II).]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जलाई 1973

का० आ० 406(अ).—नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के साथ पढ़ते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है; अर्थात्—

(क) नारियल उगाने वाले तथा भूसी गैर नारियल जटा के धागे के उत्पादक :

1. श्री के० श्रीनिवास कार्यालार,
थेकड, त्रिवेन्द्रम (केरल) ;

2. डा० आई० एम० पटेल, एम० एम० सी०, पी० एच० डी०,
नं०—8, 17 क्रौस, 12 मेन मालेश्वरम्,
बंगलौर-3.

3 डा० के० पद्मनाभन्,
वैट्टुरनीमडस्, नागरकोटल,
कन्या कुमारी जिला (तमिलनाडु) ।

(ख) भूमी, नारियल जटा और उसके धागे के उत्पादन में तथा नारियल जटा उत्पादों के विनिर्माण में लगे हुए व्यक्ति :—

1. डा० के० सी० ऐप्पन,
अध्यक्ष, काँयर लेबर यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०),
एलप्पी ।
2. श्री बी० रमेशन,
वाइस-प्रेसीडेंट,
ट्रावनकोर काँयर फैक्टरी वर्कर्स यूनियन (ए० आई० टी० यू० सी०) ।
3. श्री एम० कनारन,
काँयर वर्कर्स यूनियन,
कोजीकोड (केरल) ।

(ग) नारियल जटा उत्पादों के विनिर्माण :

1. श्री सी० प्रभाकरन,
मै० एम्प्लोयर्स एण्ड कं० (ट्राव०) लि०,
एलप्पी ।
2. श्री रवि कल्याणकरन्,
प्रबन्ध निदेशक,
एलप्पी कं० लि०, एलप्पी ।
3. श्री रमन कुट्टो अच्छन,
अध्यक्ष,
गुट्टूर, इजलैड काँयर प्रॉडक्ट्स,
फो-प्रोपर्टिव सोसाइटी,
कोचीन ।

(घ) नारियल जटा, उसके धागे और उसके उत्पादों के व्यापारी जिसमें निर्यातकर्ता और आन्तरिक व्यापारी दोनों सम्मिलित हैं :—

1. श्री सी० जी० सदाशिवन्,
अध्यक्ष, केरल स्टेट काँयर कॉर्पोरेशन लि०,
एलप्पी ।
2. श्री सी० बी० राजप्पन्,
चारनकट्टु काँयर मैन्यू० कं० थेरतलाई ।

3. श्री वी० आर० प्रसाद,
ट्रायनकोर काँयर मेट्स एण्ड मेटिंग कं०.
शेयर्सलाई ।

(ङ) संसद सदस्य

1. श्री सी० के० चन्द्रप्पन,
संसद सदस्य. लोकसभा ।
2. श्री वयलार रवी, संसद सदस्य, लोक-सभा ।
3. श्री मेथ्यू करियान, संसद सदस्य, राज्य सभा ।

(च) नारियल उगाने वाले प्रधान राज्यों की सरकारें :

1. काँयर के लिए विशेष अधिकारी,
केरल, त्रिवेन्द्रम् ।
2. संयुक्त निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, तमिलनाडु ।
3. संयुक्त निदेशक उद्योग,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद ।
4. संयुक्त निदेशक उद्योग और वाणिज्य,
मैसूर सरकार, बंगलौर ।
5. संयुक्त निदेशक उद्योग और वाणिज्य,
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर ।

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग जिनकी बाबत केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनका बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए :

1. श्री रामेश पाई,
अध्यक्ष,
कर्नाटक काँयर प्रॉडक्ट्स लि०,
उडीपी ।
2. श्री एच० एन० कालानी,
मुख्य कार्यकारी, ट्रेस्टिंग्स मिल लि०,
कलकत्ता ।
3. श्री जे० मुरुकण्डी,
वी कार्मशियल डेम्पोरियस,
एलप्पी ।

[फा० सं० 16/1/73—आई०सी०सी० (2)]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।